

WELCOME

SUPER37

YOUR DREAM WILL COME TRUE



SUPERB7
YOUR DREAM WILL COME TRUE


क्यों यूज करें SUPERB 22
product चलिए जानते है



हर साल करीब
15 मिलियन
मृत्यु का कारण
ये बीमारियाँ हैं

जिससे
20 से 64 वर्ष की
आयु
में ही मृत्यु हो
जाती है

Every year about 15 million people die of the following illnesses between the age of 20 to 64 years old.



WHO की Study के मुताबिक ...



अगर हमें अपना पूरा जीवन स्वस्थ जीना है तो हमें चाहिए



साफ़ पानी



स्वच्छ भोजन



साफ़ हवा



Air



Fruits



Food



Water



Vegetables




Milk

Sources of Toxic Substances

आखिर ...

अच्छे स्वास्थ्य
के लिए
करें क्या ???



SUPERB 22

Multivitamin & Multi Mineral

120 Capsule 750mg

Immunity Booster



MORINGA



MANGOSTEEN



SEA BUCHTHORN



GOTU KOLA



ASTAXANTHIN



BLUE BERRY



GINKGO BILOBA



MILK THISTLE



SIBERIAN GINSENG



ELEEBERRY



AMLA



DANDELION



POMEGRANATE



NANO CURCUMIN



GINGER



BILBERRY



VITAMIN-C



VITAMIN-B6



VITAMIN-B12



VITAMIN-B2



CLOVES



GOJI BERRY



MFD BY CERTIFIED



Use the product tell the story

SUPERB 22

MULTIVITAMINS & MULTIMINERALS

Benefits

- ~ Rejuvenates The Body & Revitalises The Cells
- ~ Restores Energy & Releases Stress
- ~ Purifies Blood & Stimulates Immune System
- ~ Improves Digestion & Enhance Well-being
- ~ Assists In Fatigue And Weakness
- ~ Helps People With Drug Addiction
- ~ Effective Detoxifier



मोरिंगा के स्वास्थ्य लाभ

मोरिंगा बहुत ही शक्तिशाली सुपर फूड है। यह सूजन को कम करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी दर्द को कम करता है।

- * यह गठिया एक्जिमा सोरायसिस को ठीक करता है।
- * कैंसर के खतरे को कम करता है।
- * पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है।
- * एलर्जी और डायबिटीज को ठीक करने में मदद करता है।
- * हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है।
- * एंटी-इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर है।
- * त्वचा और बालों को स्वस्थ रखता है।
- * थाईराईड को ठीक करने और कंट्रोल करने में मदद करता है।
- * एनिमिया से बचाव करता है।
- * पेट से होने वाली समस्या गैस, कब्ज,

एसेडीटी को ठीक करने में मदद करता है।

- * बवासीर को ठीक करने में मदद करता है।
- * शरीर की सूजन को कम करता है।

मोरिंगा (MORINGA)



मैंगोस्टीन के स्वास्थ्य लाभ

सूजन ,तपेदिक, मासिक धर्म संबंधी विकार कैंसर पुराने ऑस्टियोआर्थराइटिस पर काम करता है ।

- * एंटी-एजिंग-उम्र बढ़ने को रोकने में मदद करता है ।
- * एंटी एलर्जी प्रतिक्रियाओ को रोकने में मदद करता है ।
- * गठिया रोग को रोकने में मदद करता है ।
- * धमनियां को सख्त होने से रोकने में मदद करता है ।
- * एंटीबायोटिक-जीवाणु संक्रमण को रोकता एवं नियंत्रित करता है ।
- * गुर्दे की पथरी को रोकने में मदद करता है ।
- * मोतियाबिंद रोधी-मोतियाबिंद को रोकने में मदद करता है ।
- * डायरिया रोधी-अवसाद में मदद करता है ।

- * विरोधी थकान-थकान दूर करने में मदद करता है ।
- * एंटीफंगल-फंगल संक्रमण को रोकने में मदद करता है ।
- * एंटी-ग्लूकोमा-ग्लूकोमा को रोकने में मदद करता है ।
- * शरीर की सूजन को कम करने में मदद करता है ।

मैंगोस्टीन
(MANGOSTEEN)



सी बकथॉन के स्वास्थ्य लाभ

सी बकथॉन पोषक तत्वों का भण्डार है। इसमें विटामिन सी, ई, एमोनी एसिड, बीटा कैरोटीन, लाईकोपीन प्रो विटामिन, खनीज एक्टिव तत्व पाये जाते हैं।

- * दिल के सेहत के लिये उपयोगी।
- * डायबटिज रोग को कंट्रोल करता है।
- * एक्जीमा रोग को ठीक करने में मदद करता है।
- * घाव को जल्दी ठीक करने में उपयोगी है।
- * बालों को सफेद होने से रोकता है।
- * कोलेस्ट्रॉल को कम करता है।
- * खुजली, सोराईसिस को ठीक करता है।
- * पथरी को बनने से रोकता है।

- * जोड़ों की समस्या में लाभदायक।
- * यह आंखों की खटती हुई रोशनी को ठीक करने में मदद करता है।



सी बकथॉन
(SEA BUCKTHORN)

ब्रम्ही के स्वास्थ्य लाभ

ब्रम्ही ब्रेन से होने वाली समस्या को ठीक करता है।
मेमेरोलॉस, बौद्धिक क्षमता चिन्ता को कम करता है।

- * बार चिढ़चिढ़ापन, गुस्सा, तनाव एवं मानसिक संतुलन को ठीक करने में मदद करता है।
- * घाव को जल्दी भरने में लाभकारी।
- * साईंटिका, वात, लकवा को ठीक करने में मदद करता है।
- * एडिया को फटने से रोकता है।
- * निन्द न आने के प्रभाव को कम करता है।
- * बेहोशी, थकान को दूर करता है।
- * मस्तिष्क की कोशिकाओं को पूनः जीवित करता है।

- * हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाता है।
- * एनिमिया को ठीक करता है।
- * यह फूली हुई नसों में सुधार करता है।
- * पैरों में दर्द और एडिमा को कम करता है।



ब्रम्ही
(GOTU KOLA)

आस्टासीन के स्वास्थ्य लाभ

अल्जाइमर रोग, एथलेटिक प्रदर्शन, उम्र बढ़ने वाली त्वचा, व्यायाम से मांसपेशियों में दर्द, और कई अन्य सहित कई उद्देश्यों के लिए आस्टासीन का उपयोग करते हैं।

- * प्रतिरक्षा प्रणाली एवं सूजन में कमी को समर्थन करता है।
- * अल्ट्रावालेट यूवी किरणों से त्वचा की क्षति से सुरक्षा करता है एवं स्वस्थ हृदय में मदद करता है।
- * मधुमेह विरोधी गतिविधि।
- * हृदय रोग की रोकथाम सूजन को कम करने में मदद करता है।
- * उम्र से संबंधित शारीरिक चुनौतियों से सुरक्षा एवं सुधार करता है।
- * इसमें एंटीऑक्सीडेंट की प्रचुर मात्रा में होने से कर्क रोग(कैंसर) से बचाव में मदद करता है।

- * दिल की सेहत जोड़ो के दर्द को कम करने में सहायक एवं प्रजनन क्षमता को बढ़ावा देता है।
- * यह एक दुर्लभ जड़ी-बुटी है।

आस्टासीन
(ASTAXANTHIN)



ब्लूबेरी के स्वास्थ्य लाभ

ब्लूबेरी हृदय स्वास्थ्य, हड्डियों की मजबूती, त्वचा के स्वास्थ्य, रक्तचाप, मधुमेह प्रबंधन, कैंसर की रोकथाम और मानसिक स्वास्थ्य में मदद कर सकती है।

- * यह 60 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्कों में सोच में सुधार करता है।
- * 7-10 साल की उम्र के बच्चों में याददाशत में सुधार करता है। अवसाद को काम करता है
- * सभी उम्र के लोगो के संक्रमण को कम करता है।
- * बुजुर्ग लोगो में ताकत या चलने की गति में सुधार करता है।
- * वृद्ध लोगो में पैर रखने और संतुलन में सुधार करता है।
- * बच्चों में गठिया (किशोर गठिया) कर्क को रोगो से बचाता है।
- * क्रोनिक थकान सिंड्रोम को दूर करता है।
- * कब्ज, दस्त, बुखार, बवासीर, श्रम पीड़ा से दूर रखता है।
- * पेरोनी रोग (लिंग में निशान) को दूर करता है।
- * मोतियाबिंद और ग्लूकोमा की रोक-थाम में मदद करता है।
- * गले में खराश अल्सर को रोकने में मदद करता है।



ब्लूबेरी
(BLUE BERRY)

जिन्कगो बीलोबा के स्वास्थ्य लाभ

यह रक्त के प्रवाह को भी बढ़ा सकता है ।
और मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर जैसे काम करता है ।

- * शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ।
- * सूजन से लड़ने में मदद कर सकता है ।
- * गठिया चिड़चिड़ा आंत्र रोग कर्क हृदय रोग स्ट्रोक परिसंचरण और हृदय स्वास्थ्य में सुधार करता है ।
- * मानसिक विकारों और मनोभ्रंश के लक्षणों को कम करता है ।
- * ब्रेन फंक्शन और तंदुरुस्ती में सुधार करता है ।
- * चिंता को कम करने में मदद करता है ।
- * दृष्टि और नेत्र को स्वस्थ करने में मदद करता है ।
- * सिरदर्द और माइग्रेन का इलाज करता है ।

- * अस्थमा और सीओपीडी के लक्षणों में सुधार करता है ।
- * पीएमएस के लक्षणों को कम करता है ।
- * यौन रोग का इलाज करता है ।

जिन्को बीलोबा
(GINKGO BILOBA)



मिल्क थिस्ल के स्वास्थ्य लाभ

मिल्क थिस्ल का उपयोग लिवर और किडनी को साफ करने यानी डिटॉक्सीफिकेशन के लिये किया जाता है ।

- * लिवर की जटील समस्याओं जैसे हेपेटाईटिस (लिवर में सूजन)
- * सिरोसिस (लिवर डेमेज की स्थिति) और पिताशय से बचाता है ।
- * पथरी को ठीक करने में मदद करता है ।
- * हार्ट स्वास्थ्य के लिये लाभदायक है ।
- * डायबिटिज के खतरे से बचाता है ।
- * कैंसर के लिये उपयोगी ।
- * हड्डियो को मजबूत बनाने में मदद करता है ।
- * मस्तिष्क स्वास्थ्य के लिये लाभदायक है ।
- * इम्युनिटी को बढ़ाने के लिये उपयोगी ।

- * पेट से होने वाली समस्या गैस, कब्ज, एसेडीटी को ठीक करने में मदद करता है ।

मिल्क थिस्ल (MILK THISTLE)



साइबेरियाई जनिसेंग के स्वास्थ्य लाभ

इसका उपयोग प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने, सर्दी को रोकने और भूख को बढ़ाने के लिए भी करते हैं।

- * अल्जाइमर रोग वाले लोगों में मानसिक प्रदर्शन में सुधार करता है।
- * फेफड़ों के कार्य और सीओपीडी के कुछ लक्षणों में सुधार करता है स्मृति में सुधार करता है।
- * शीघ्रपतन दोष वाले पुरुष में यौन क्रिया में करता है।
- * सर्दी या फ्लू होने के जोखिम को कम करता है।
- * थकान की भावनाओं को कम करता है।
- * शीघ्रपतन को रोकने में मदद करता है।
- * यौन उत्तेजना को काफी हद तक बढ़ाने में मदद करता है।
- * यौन समस्याओं वाली महिलाओं में यौन इच्छा में सुधार।

- * कैंसर होने के खतरे को कम करता है।
- * हृदय के कार्य में सुधार करता है।
- * पुरानी थकान को कम करता है।
- * दर्द, थकान, नींद की गुणवत्ता को ठीक करता है।
- * नसों से रिलेटिव प्राबलम को कम करता है।
- * पित्त पथरी को कम करता है।
- * रक्तचाप को नियंत्रित करता है।



साइबेरियाई जिनसेंग
(SIBERIAN GINSENG)

एल्डरबेरी के स्वास्थ्य लाभ

एल्डरबेरी के जामुन और फूल एंटी ऑक्सिडेंट और विटामिन से भरे होते हैं जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाते हैं। वे सूजन को कम करने, तनाव कम करने और आपके दिल की रक्षा करने में भी मदद करता हैं।

- * सर्दी और फ्लू राहत में प्रमुख।
- * एंटीऑक्सीडेंट में उच्च।
- * मुँहासे का इलाज।
- * झुर्रियों को कम करना।
- * दिल और रक्त वाहिका में समस्याओं को सुधार करता है।
- * कैंसर से लड़ने में मदद करता है।
- * हानिकारक बैक्टीरियों से लड़ता है।
- * प्रतिरक्षा प्रणाली का समर्थन करता है।
- * अल्ट्रावायलेट यूवी विकिरण से त्वचा की रक्षा करता है।
- * मधुमेह का खतरा कम करता है।
- * कैंसर का खतरा कम करता है।
- * कब्ज को कम करता है।

- * एचआईवी/एड्स के इलाज में मदद करता है।
- * दांतों के दर्द को कम करता है।
- * नसों के दर्द कम करने में सहायक है।
- * वजन कम करने में सहायक है।
- * मसूड़ों की सूजन कम करने में सहायक है।
- * साइनस संक्रमण के संक्रमण को रोकता है।
- * दर्द निवारक में सहायक है।



एल्डरबेरी
(ELEEBARRY)

आंवला के स्वास्थ्य लाभ

आंवला पाचन में सुधार और अम्लता को दूर करने में मदद करता है। यह मधुमेह रोगियों के लिए भी प्रभावी है बालों के सफेद होने को रोकने में मदद करता है।

- * घुटने के पुराने आर्थराइटिस वाले लोगों में दर्द को कम कर देता है।
- * अकेले मानक उपचार से बेहतर सूजन के लक्षणों को कम करता है।
- * हृदय रोग, मधुमेह और कैंसर जैसी पुरानी स्वास्थ्य स्थितियों के जोखिम को कम करें।
- * खूनी दस्त (पेचीस)
- * कैंसर
- * मधुमेह
- * दस्त
- * आँखों की समस्या
- * धमनियों का सख्त होना (एथेरोस्क्लेरोसिस)
- * खट्टी डकार
- * जोड़ों का दर्द
- * मोटापा
- * अग्नाशय की सूजन
- * स्मृति और मस्तिष्क स्वास्थ्य
- * रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है।



आंवला
(AMLA)

सिंहपर्णी के स्वास्थ्य लाभ

सिंहपर्णी के पत्तो में कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है ।

यह हड्डियों में होने वाले प्रॉब्लम को ठीक करने में मदद करता है ।

* यह लिवर से संबंधित समस्या जैसे-

अपचन, गैस, कब्ज, खट्टी डकार को ठीक करने में मदद करता है ।

* यह कैंसर को ठीक करने में भी उपयोगी होता है ।

* यह चय-पचय प्रणाली को ठीक करता है ।

* मूत्र संबंधित रोगों से बचाव करता है ।

* पाचन प्रणाली को मजबूत बनाता है ।

* वजन को कम करने में मदद करता है ।

* मधुमेह कंट्रोल करने में मदद करता है ।

* जड़ हड्डियों को मजबूत बनाता है ।



सिंहपर्णी
(DANDELION)

अनार के स्वास्थ्य लाभ

अनार रेड वाइन और ग्रीन टी की तुलना में तीन गुना अधिक एंटीऑक्सिडेंट मुक्त कणों को हटाने, कोशिकाओं को नुकसान से बचाने और सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं।

- * हृदय स्वास्थ्य बनाए रखें मधुमेह नियंत्रण में सहायक होता है।
- * कैंसर के खतरे को कम करता है।
- * पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद प्रतिरक्षा बढ़ाता है।
- * हड्डियों को मजबूत करता है।
- * रक्तचाप को नियंत्रित करता है।
- * एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर है।
- * वजन घटाने में सहायक बैक्टीरिया और फंगस से बचाता है।
- * किडनी स्टोन की समस्या में राहत देता है।
- * फैटी लीवर की समस्या में आराम करने में मदद करता है।
- * अल्जाइमर में सहायक एवं बालों एवं त्वचा की समस्या के लिए सहायक होता है
- * इसके अलावा अनार फोलेट, विटामिनघ, विटामिनए, विटामिन B6 पोटैशियम प्रदान करते हैं।



अनार
(POMEGRANATE)

हल्दी के स्वास्थ्य लाभ

हल्दी ऑक्सीडेटिव और चयापचय सिंड्रोम, गठिया, चिंता के प्रबंधन में मदद करता है ।
यह व्यायाम प्रेरित सूजन और मांसपेशियों में दर्द को कम करने में मदद करता है ।

- * दिल की बीमारी में ।
- * कैंसर ठीक करने में ।
- * अल्जाइमर रोग में ।
- * शरीर की एंटीऑक्सीडेंट क्षमता बढ़ा सकते हैं ।
- * हल्दी मस्तिष्क न्यूरोट्रॉफिक कारक को बढ़ावा देता है ।
- * यह हृदय रोग के जोखिम कम करता है ।
- * कैंसर को रोकने में मदद करता है ।
- * यह अल्जाइमर रोग के इलाज में उपयोगी होता है ।
- * गठिया के रोग को कम करने में मदद करता है ।
- * कब्ज को कम करता है ।
- * जोड़ो और मांसपेशियों के दर्द को कम करता है ।
- * सांस के संक्रमण को दूर करता है ।

- * सिर दर्द में उपयोगी ।
- * गुर्दों से सम्बंधित समस्याओं को दूर करने में ।
- * उम्र के साथ बढ़ने वाली बीमारियों को दूर करने में मदद करती है ।
- * त्वचा को स्वस्थ बनाने में मदद करता है ।
- * एलर्जी को आसानी से दूर करता है ।
- * मिरगी रोग दूर करने में ।
- * तनाव दूर करने में ।



हल्दी
(NANO CURCUMIN)

अदरक के स्वास्थ्य लाभ

आपके शरीर को उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और फेफड़ों की बीमारियों जैसी अन्य पुरानी बीमारियों से लड़ने में मदद करता है, साथ ही स्वस्थ उम्र बढ़ाने में मदद करता है।

- * वजन घटाने में मदद करता है।
- * ऑस्टियोआर्थराइटिस में मदद कर सकता है।
- * कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करता है, और हृदय रोग जोखिम कारकों में सुधार कर सकता है।
- * पुरानी कब्ज के इलाज में उपयोगी होता है।
- * मासिक धर्म के दर्द को काफी कम करता है। विशेष रूप से मॉर्निंग सिक्नेस को ठीक करता है।
- * कैंसर को रोकने में मदद करता है।
- * मस्तिष्क के कार्य में सुधार करता है और अल्जाइमर के रोग से बचाता है।
- * संक्रमण से लड़ने में मदद करता है।
- * ब्लड शुगर कम करता है।
- * सूजन कम करने में उपयोग किया जाता है।



अदरक
(GINGER)

बिलबेरी के स्वास्थ्य लाभ

बिलबेरी कम सूजन और रक्त शर्करा के स्तर के साथ-साथ बेहतर दृष्टि और हृदय स्वास्थ्य से जुड़े हुए है। वे मस्तिष्क के कार्य सुधार कर सकते है।

- * रक्त वाहिकाओं को मजबूत करता है।
- * परिसंचरण में सुधार दस्त का इलाज करता है।
- * कोशिका क्षति को रोके रेटिनोपैथी के इलाज में मदद कर सकता है।
- * रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में मदद करता है।
- * मधुमेह का खतरा कम कर हृदय रोग का खतरा कम करता है।
- * कैंसर की रोकथाम में बिलबेरी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स सूजन को कम करने में मदद करता है।
- * आपके शरीर में अल्जाइमर रोग का खतरा कम करता

- * पाचन स्वास्थ्य बिलबेरी कई अन्य पोषक तत्वों से भरे होते है। विटामिन-ए, विटामिन-के मैग्नीशियम, मैंगनीज कॉपर जैसे अन्य खनिज लवण शामिल है।



बिलबेरी
(BILBERRY)

विटामिन सी के स्वास्थ्य लाभ

शरीर के सभी ऊतको की वृद्धि, विकास और मरम्मत के लिए आवश्यक है।

उपस्थित हड्डियों और दांतों का रखरखाव शामिल है। स्वास्थ्य सुविधाएँ।

- * तनाव - विटामिन सी की कमी के कारण तनाव से संबंधित कई बीमारियाँ होती हैं इसे रोकने में विटामिन सी सहायक होता है।
- * जुकाम - सर्दी-जुकाम, फ्लू निमोनिया फेफड़ों के इन्फेक्शन एवं संक्रमण जैसी जटिल बिमारियों के जोखिम को काफी हद तक कम करता है।
- * आघात- विटामिन सी काफी हद तक ब्रेन स्ट्रोक के जोखिम को कम करता है।
- * दृष्टि हानि- उच्च रक्तचाप (हाई बीपी) कम करने में सहायक है।
- * यह मस्तिष्क के बेहतर कार्य में भूमिका निभाता है।
- * विटामिन सी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है।

- * इसके एंटी ऑक्सीडेंट गुण के कारण पुरानी बीमारियों से काफी बचाव करता है।
- * त्वचा की उम्र बढ़ना। झुर्रियों को कम करने के लिए के सहायक है।
- * विटामिन सी सूजन को कम करने आँखों की रोशनी एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है।



विटामिन-बी6 स्वास्थ्य लाभ

विटामिन बी-6 आपके रक्त में अमीनो एसिड की सामान्य मात्रा को बनाए रखने में मदद करता है ।

यह भरपूर खाद्य पदार्थ खाने से आपके शरीर को संक्रमण से बचाने में मदद मिलती है ।

- * मूड में सुधार और लक्षणों को कम करता है ।
- * अवसाद हीमोग्लोबिन की सहायता से एनीमिया को रोकता है ।
- * उत्पादान गर्भावस्था और शैशवावस्था के दौरान मस्तिष्क का विकास सेरोटोनिन और डोपामाइन सहित न्यूरोट्रांसमीटर बनाना हीमोग्लोबिन बनाना लाल रक्त कोशिकाओं का हिस्सा है । जो ऑक्सीजन ले जाता है ।
- * कैंसर को रोकने में मदद करता है ।
- * बेहतर परिसंचरण एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली सिकनेस बेहतर मूड पीएम एस के लक्षणों के उपचार में उपयोगी होता है ।

- * गर्भावस्था के दौरान मेंटली का इलाज करने में मदद करता है ।
- * नेत्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है और नेत्र रोगों को रोकता है ।
- * रुमेटीइड गठिया से जुड़ी सूजन का इलाज करता है ।



विटामिन-बी6
(VITAMIN-B6)

विटामिन बी-12 के स्वास्थ्य लाभ

यह शरीर के रक्त और तंत्रिका कोशिकाओं को स्वस्थ रखने में मदद करता है। और आपकी सभी कोशिकाओं में डीएनए, आनुवांशिक सामग्री बनाने में मदद करता है।

- * प्रमुख जन्म दोषों को रोकता है।
- * अस्थि स्वास्थ्य का समर्थन करता है।
- * मैकुलर डिजनरेशन के आपके जोखिम को कम करता है।
- * मूड को ठीक करता है बार-बार चिढ़ना गुस्सा तनाव मस्तिष्क से संबंधित समस्याओं को ठीक करता है।
- * विटामिन बी-12 न्यूरोन्स आपको एक ऊर्जा बूस्ट देता है होमोसिस्टीन कम करके हृदय स्वास्थ्य में सुधार करता है।
- * बाला, त्वचा और नाखूनो को स्वस्थ रखने में मदद करता है।


विटामिन- बी12
(VITAMIN- B12)



विटामिन बी-2 के स्वास्थ्य लाभ

विटामिन बी-2 प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है ।
यह शरीर की ऊर्जा आपूर्ति को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ।

- * लाल रक्त कोशिका के निर्माण और एनीमिया की रोकथाम में मदद करता है ।
- * प्रमुख जन्म दोषों को रोक सकता है ।
- * ऑस्टियोपोरोसिस (पेरालिसिस) को रोक सकता है ।
- * मैकुलर डिजनरेशन के आपके जोखिम को कम करने में मदद करता है ।
- * मूड और अवसाद के लक्षणों में सुधार कर नुकसान को रोककर आपके मस्तिष्क को लाभ पहुँचाता है ।
- * होमोसिस्टीन को कम करके हृदय स्वास्थ्य में सुधार करता है ।
- * स्वस्थ बालों, त्वचा और नाखूनों का समर्थन करता है ।
- * माइग्रेन कुछ प्रकार के कैंसर मोतिया बिंद हृदय रोगों से बचाता है ।



विटामिन-बी2
(VITAMIN-B2)

लौंग के स्वास्थ्य लाभ

लौंग एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। हृदय रोग, मधुमेह और कुछ कैंसर के विकास के जोखिम को कम करने में मदद कर सकते हैं।

- * लौंग आपके दर्द के खाव को कम करने में मदद करती है।
- * विकासशील हृदय रोग, मधुमेह, और कुछ कैंसर रोग से बचाने में सहायक होती है।
- * अल्सर को कम करने में।
- * बेहतर लीवर फंक्शन लौंग भी इसका एक उत्कृष्ट स्रोत है।
- * विटामिन के, पोटेशियम, बीटा-कैरोटिन, यूजेनॉल के स्रोत होते हैं।

लौंग
(CLOVES)



गोजी बेरी के स्वास्थ्य लाभ

गोजी बेरीज में स्वस्थ एंटीऑक्सीडेंट अपने प्रतिरक्षा-बढ़ाने वाले गुणों और हानिकारक मुक्त कणों और सूजन से लड़ने की उनकी क्षमता के लिए जाने जाते हैं ।

- * इनमें फाइबर और प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाये जाते हैं ।
- * विटामिन और लोहा, तांबा सेलेनियम और अन्य खनिज पाये जाते हैं ।
- * विटामिन ए और सी पाये जाते हैं ॥
- * एंटीऑक्सीडेंट का उत्कृष्ट स्रोत ।
- * एंटी-एजिंग के लाभ के लिये जाना जाता है ।
- * कैंसर के विकास को रोकने में मदद करता है ।
- * रक्त शर्करा नियंत्रण में सुधार करता है ।
- * ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है ।
- * वजन कम करने में आपकी मदद करता है ।
- * कोलेस्ट्रॉल के स्तर में तेजी से सुधार करता है ।

गोजी बेरी
(GOJI BERRY)



SUPERB 22

**Multivitamin & Multimineral
Food Supplementary**

मल्टीपल एक्शन व फायदे

1. एंटी-स्ट्रेस (तनावरोपी)
2. एंटी-हायपरटेंसिव
3. एंटी-इंफ्लेमेट्री (जलनरोधी)
4. एंटी-कैंसर (कैंसर रोधी)
5. एंटी-ट्यूमर
6. एंटी-बैक्टीरियल
7. एंटी-डायबिटीक
8. एंटी-व्हायरल
9. एंटी-स्पॅसमोडिक
10. एंटी-पैरासाइट
11. एंटी-ऑक्सीडेंट
12. एंटी-फंगल
13. एंटी-अस्थेमेटिक
14. एंटी-अल्सर
15. एंटी-एलर्जिक
16. एंटी-एजिंग



MPD BY CERTIFIED

Use the product tell the story